(FORMERLY KNOWN AS PROVESTMENT SERVICES LIMITED)

CIN: L74899DL1994PLC058964

GST NO. 07AAACP1326P1ZB

WEBSITE: www.proclbglobal.com

deepika@provestment.net/deepika.proclbglobal@gmail.com

26th August, 2024

To,

THE MANAGER
CORPORATE RELATIONSHIP DEPARTMENT
BSE LIMITED
PHIROZE JEEJEEBHOY TOWER,
DALAL STREET, MUMBAI- 400001

Scrip Code: 540703 - PRO CLB GLOBAL LIMITED (Formerly PROVESTMENT SERVICES LIMITED)

<u>SUB: INTIMATION UNDER REGULATION 47 OF SEBI (Listing Obligations and Disclosure</u> Requirements), Regulations, 2015)

In pursuant to Regulation 30 read with Schedule III of SEBI Listing Regulations, 2015 (LODR), please find enclosed copies of Public notice for 30th Annual General Meeting (AGM), Book Closure, Cutoff/Record Date and E-voting of the Company published in newspaper viz. Financial Express (English Newspaper) & Jansatta (Hindi Newspaper) as on Sunday, August 25th, 2024.

This is for your information and records.

Please acknowledge the receipt.

Thanking you,

Yours faithfully,
For FOR PRO CLB GLOBAL LIMITED
(Formerly PROVESTMENT SERVICES LIMITED)

DEEPIKA RAJPUT
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

Encl: As below

FE SUNDAY

NIKKI GLOBAL FINANCE LIMITED

CIN: L65999DL1986PLC024493 R/O: 3rd Floor, Eastern and Central Wing, 124 Thapar House, Janpath, New Delhi - 110001 E-Mail: ngfltd@rediffmail.com, Tel no. 08542836641, WEB: www.nikkiqlobal.com

NOTICE NOTICE is hereby given that the 38th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Friday, 20th September, 2024 at 09:00 A.M. at the Registered Office of the Company at 3rd Floor, Eastern and Central Wing, 124 Thapar House, Janpath, New Delhi - 110001. In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and the Financial Statements (Standalone) for the financial year 2023-2024, along with the Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto, have been sent to all the members of the Company whose email address are registered with the Company/Depository Participant(s). The aforesaid documents are also available on the Company's website and on the website of the Stock Exchange, i.e. BSE Limited at www.bseindia.com Pursuant to provisions of section 91 of the Companies Act, 2013 read with rule 10 of The Companies (Management and Administration) Rules 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Register of the Company shall remain closed from 13th September, 2024 to 20th September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Pursuant to provisions of Section 108 of Companies Act 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015, Company is pleased to provide its members the electronic facility (remote e-voting) to transact all the business mentioned in the notice through National Services Depository Limited (NSDL). All the members are informed that:-

(a) The cut-off date for determining the eligibility of the members to vote by remote e-voting or voting at the AGM is 13th September, 2024.

(b) The remote E-voting shall commence on September 17, 2024 at 09:00 a.m. IST and end on September 19, 2024 at 05:00 p.m. IST. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said

(c) A person, who has acquired shares and become member of the Company after the email sending date i.e. 24th August, 2024 and holding shares on cut-off date i.e. 13th September, 2024, may obtain the procedure to login by sending request at www.evoting.nsdl.com. However, if the person is already registered with NSDL for e voting than he can use his existing login ID/user ID and password for casting the vote through e voting.

(d) Members holding shares in Physical Mode, who have not registered/updated their email addresses with the company, are requested to visit the website of the company's Registrar at www.skylinerta.com click on email registration and upload required documents therein. (e) Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered/updated their email

with whom they maintain their demat accounts. The Notice of AGM is available on the Company's website www.nikkiglobal.comand on NSDL website www.evoting.nsdl.com: (g) The procedure of electronic voting is available in the Notice of the 38th Annual General Meeting as well as in the email sent to the Members and on NSDL website www.evoting.nsdl.com. In case

addresses, are requested to register/update their email addresses with depository participants

of any queries pertaining to e-voting, member can e-mail to evoting@nsdl.co.inand/or

ngfltd@rediffmail.com: (h) Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the AGM and in particular, manner of casting vote through remote e-voting or through ballot paper during the

> By the order of the Board For: NIKKI GLOBAL FINANCE LIMITED

Rajesh Kumar Pandey Date: 24th August, 2024 **Managing Director** Place: Delhi

CONTINENTAL SECURITIES LIMITED Regd Office: Flat No. 301, Metro Plaza, Parivahan Marg Jaipur Rajasthan 302001 IN

Email-continentalsecuritieslimited@gmail.com • Website: www.continentalsecuritiesltd.com Phone No: 0141-2943037, CIN: L67120RJ1990PLC005371

NOTICE OF THE 34th ANNUAL GENERAL MEETING (AGM), **BOOK CLOSURE & E-VOTING INFORMATION**

NOTICE is hereby given that the 34th Annual General Meeting of the members of CONTINENTAL SECURITIES LIMITED ("the Company") in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ['SEBI (LODR) Regulations"] will be held on Wednesday, 18th September, 2024, at 02:00 P.M. IST through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("DAVM") facility, without the physical presence of the Members at a common venue, t transact the business as set out in the Notice of 34th AGM dated 24.08.2024 as decided by the board of directors in their board meeting held on 24.08.24.

The Notice of 34th AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year ended March 31, 2024 along with login details for joining the 34th AGM through VC/ OAVM facility including e-voting details has been sent on Saturday, August 24, 2024 through e-mail to all those Members whose e-mail address were registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agent or with their respective Depository Participants ("DP") in accordance with the MCA Circulars and SEBI Circular, and the same are also available on Company's website (www.continentalsecuritiesItd.com), Stock Exchange's website (www.bseindia.com) and on the website of Central Depository Services Limited (CDSL) website at www.evotingindia.com. In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, Secretarial Standard · 2 issued by the Institute of Company Secretaries of India and MCA Circulars, the Members are provided with the facility to cast their vote electronically through remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) services provided by CDSL all resolutions set forth in the Notice of the 34th AGM dated 24.08.2024.

The remote e-voting shall commence on Sunday, September 15, 2024 (10:00 A.M. IST) and end: on Tuesday, September 17, 2024 (5:00 P.M. IST) During this period, Members may cast their vote electronically. Thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also participate in the AGM through VC / DAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through e voting facility available during the AGM.

Once the Member cast vote on a resolution, the Member shall not be allowed to change it subsequently. Detailed instructions for remote e-voting, joining the AGM and e-voting during the AGM is provided in the Notice of 34th AGM dated 24.08.2024.

Mis Ajay Khandelwal & Associates, Practicing Chartered Accountant, Jaipur has been

appointed as Scrutinizer by the Company to scrutinize the entire e-voting process in a fair and

The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of the Company as on Wednesday, September 11, 2024 ("Cut-off date"). A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date shall only be entitled to join the AGM, avail the remote e-voting and e-voting facility during the AGM. A person who ceases to be a Member as on Cut-off date should treat this Notice for information purposes only.

For CONTINENTAL SECURITIES LIMITED

Pravita Khandelwal (Company Secretary and Compliance Officer, Place: Jaipur Membership No.: 5383 Date: 24.08.2024

Properties of which the possession had been taken is as follows.

Arora W/o Mr. Navtesh Arora (Co- Borrower),

Bajaj (Guarantor), **Acount No. 110700003785**

Date: 24.08.2024

PRO CLB GLOBAL LIMITED

(FORMERLY PROVESTMENT SERVICES LIMITED) CIN: L74899DL1994PLC058964

Regd. Office: 5/34, Third Floor, Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi 110005 | Email : deepika.proclbglobal@gmail.com Ph: +91 9582325860 | Website: www.proclbglobal.com Information Regarding 30th Annual General Meeting of PRO CLB GLOBALLIMITED

NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, September 16, 2024 at 10:00 A.M.(IST) at B-4/148C Safdarjung Enclave, New Delhi-110029 to transact the business (es) as set out in the Notice of the AGM which is being sent to the members by E-mail.

30th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday. September 16, 2024 at 10:00A.M. IST. The Said Notice along with Annual Report for the Financial Yearwill be sent only by

the electronic mode to all the Members at their registered email-ids and the same

is also available on the website of the Company at www.proclbglobal.com .The

Notice of AGM is also available on the website CDSL at www.evotingindia.com Shareholders will have an opportunity to cast their vote on the businesses as set forth in the Notice of the AGM through remote e-voting System. The Log in credentials for casting the votes through remote e-voting shall be made available to the shareholders through e-mail. The detailed procedure for casting the votes through remote e-voting and voting system shall be provided in the Notice of the

Members who have not registered their email addresses, so far, are also requested to register their email address in respect of electronic holdings with depository through their concerned Depository Participants. Members who hold their shares in physical form are requested to get their email id registered, by providing necessary details like Folio No., Name of the Member, Mobile No. And Email Id with M/s. Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd (Registrar & Transfer Agent of the Company) or sent details on deepika.proclbglobal@gmail.com

NOTICE FOR 30th(ANNUAL GENERAL MEETING) AGM, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting(AGM) of the Companywill be held on Monday, September 16, 2024 at 10:00 A.M.at B-4/148C Safdarjung Enclave, New Delhi-110029to transact the business (es) as set out in the Notice dated August 22, 2024. The said Notice along with Annual Report has been sent to all the Members at their registered email-ids byAugust24, 2024and the same is also available on the website of the Company atwww.procloglobal.com.The Notice of AGM is also available on the website CDSL at www.evotingindia.com

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of Members and Share transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, September 10, 2024 to Sunday, September 15, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM of the Company for the year ended March 31, 2024.

As permitted under Rule 11 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the Annual Report for the year 2024 have been sent electronically on August 24, 2024 to those members who have registered their e-mail id addresses with M/s. Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd (Registrar & Transfer Agent of the Company).

Members who have not registered their email addresses, so far, are also requested to register their email address in respect of electronic holdings with depository through their concerned Depository Participants. Members who hold their shares in physical form are requested to get their email id registered, by providing necessary details like Folio No., Name of the Member, Mobile No. And Email Id with M/s. Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd(beetalrta@gmail.com) or sent details on deepika.proclbglobal@gmail.com

Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014: a) The Company is providing remote e-voting facility to its Members to cast their vote

by electronic means on the Resolutions set out in the Notice of the 30th AGM dated

b) Commencement of remote e-voting: Friday, September 13,2024 10:00 Hrs (IST)

c) End of remote e-voting: Sunday, September 15, 2024 17:00 Hrs (IST)

d) Record Date/Cut-off date: September 09, 2024.

e) Remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting after 17:00 Hrs (IST) on Sunday, September 15, 2024.

The result of the Remote E-voting /voting shall be declared on or before September 18, 2024. The Result declared, along with Scrutinizer Report will be available at the Registered Office of the Company and also be placed on the Company's website and communication to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed. By order of the Board

(Formerly Provestment Services Limited)

For PRO CLB GLOBAL LIMITED

Date: 24.08.2024 Place: New Delhi

Deepika Rajput (Company Secretary & Compliance Officer)

"IMPORTANT" Whilst care is taken prior to acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-II. DELHI

4[™] FLOOR, JEEVAN TARA BUILDING, PARLIAMENT STREET, NEW DELHI-110001 Item No.19 Dated: 07.05.2024

TA / 1032 / 2022

In the Matter of :-

CENTRAL BANK OF INDIA VS PRAVEEN KUMAR Present:

Shri Avinash Kashyap, Counsel for Applicant Bank None for Defendants

This matter is taken up today through Video Conferencing. This is a transferred matter.

At the request of Ld. Counsel for Applicant Bank, Registry is directed to re-issue notices to the defendants in terms of order dated 12.01.2022 and 14.07.2022 to be served through publication in "Financial Express" - English Newspaper and "Jansatta" - Hindi Newspaper - Delhi & NCR Edition which has wide circulation in their respective areas and bank to collect the same through e-

the defendants at least one month prior to the next date of hearing.

Applicant bank is also directed to ensure that a copy of citation is dispatched under certification of posting to defendants and citation along with proof of dispatch is filed in the Registry on or before the next date fixed in the matter.

The matter is listed on 03.09.2024 for filing the proof of publication by the applicant bank.

mail/physically. Applicant bank is directed to ensure that notices be served to

Sd/- (Deepak Kr. Raikwar) SEAL OF COURT AR / Registrar I/C, DRT-II, Delhi

TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD Regd. Office: 11th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadan

TATA Marg, Lower Parel, Mumbai-400013. CIN No. U67190MH2008PLC187552 POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)

(As per Appendix IV read with rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002) Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the TATA Capital Housing Finance Limited., under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under

section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a

demand notices as mentioned below calling upon the Borrowers to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of the said notice. The borrower, having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower, in particular and the public, in general, that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section

13(4) of the said Act read with rule 8 of the said Rules. The borrower, in particular, and the public in general, are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the TATA Capital Housing Finance Limited, for an amount referred to below along with interest

thereon and penal interest, charges, costs etc. from date mentioned below. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act,

in respect of time available, to redeem the secured assets. Loan Name of Obligor(s)/ Date of Amount as per Legal Heir(s)/Legal Possession Account **Demand Notice** Representative(s) Rs. 17,24,139/- (Rs. TCHHF070100 Mr. Hitendra Kumar S/o Mr. 23-08-2024 0100116734 & Ramesh Chandra Agarwal (as Seventeen Lakh

TCHIN070100 | Borrower) and Mrs. Rekha Devi Twenty Four Thousand 0100118495 W/o Mr. Ramesh Chand Agarwal One Hundred Thirty & Mrs. Jyoti Sonkar W/o Mr. Nine Only) as on date Hitendra Kumar (as Co Borrower) 10-06-2024 Description of Secured Assets/Immovable Properties: All that Piece & Parcels of

Residential Plot, Admeasuring 100 Sq. Yds. i.e. 83.61 Sq. Mtrs., Comprised in Part of Khei No. 240, Situated at Village Chanheta, Tehsil & District Bareilly - 243001 (Uttar Pradesh) along with common amenities as mentioned in Sale Deed, Bounded As: East - Road 15' Wide, West - Road 12' Wide, North - House of Uma Shankar, South: Rest Property of Seller Date: - 24/08/2024 Sd/- Authorised Officer.

Place: - Bareilly (Uttar Pradesh) For Tata Capital Housing Finance Limited

homefirst

CAPITAL

PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED

Registered Office: Indian Rayon Compound, Veraval, Gujarat-362266 Branch Office: 3rd Floor, GS-Trade Centre, 534-536, Nemi Sagar Colony, Vaishali Nagar, Jaipur-302021

POSSESSION NOTICE (for Immovable Property)
Under Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2

The undersigned being the authorized officer of Aditya Birla Finance Limited under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 05.01.2024 calling upon the borrowers namely Mr. Raiesh Shah, Mr. Mohit Shah, Mr. Mudit Shah, Mrs. Mamta Shah, Mr. Murli Manohar Shah and M/s M.R. Enterprises to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 1,39,48,418/-(Rupees One Crore Thirty Nine Lakh Forty Eight Thousand Four Hundred Eighteen Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public

of the powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said act read with rule 8 the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this 23 day of Aug of the year 2024. The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Aditya Birla Finance Limited for an amount of Rs. 1,39,48,418/- (Rupees One Crore Thirty Nine Lakh Forty Éight Thousand Four Hundred

in general that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise

Eighteen Only) and interest thereon. The borrowers attention is invited to the provisions of sub-section 8 of Section 13 of the act, in respect of

time available, to redeem the secured assets. **Description of the Immovable Property**

All that part and parcel of the Plot No. B-126 (Also known as B-126 and B-126A) in scheme L.S. Nagar, Naya Kheda Ambabadi, Sikar Road, Jaipur, Rajasthan-302039.

PLACE: Jaipur DATE: 23.08.2024 **Authorised Officer**

(Aditva Birla Finance Limited)

TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD Regd. Office: 11th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam TATA Marg, Lower Parel, Mumbai-400013. CIN No. U67190MH2008PLC187552

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)

mentioned in the notice within 60 days from the date of the said notice.

(As per Appendix IV read with rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002) Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the TATA Capital Housing Finance Limited., under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under

particular and the public, in general, that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said Rules. The borrower, in particular, and the public in general, are hereby cautioned not to deal with

a demand notices as mentioned below calling upon the Borrowers to repay the amount

The borrower, having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower, in

the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the TATA Capital Housing Finance Limited, for an amount referred to below along with interest thereon and penal interest, charges, costs etc. from date mentioned below.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act. in respect of time available, to redeem the secured assets

Loan Date of Name of Obligor(s)/ Amount as per Account Legal Heir(s)/Legal **Demand Notice** Possession Representative(s) TCHHL037000 Mr. Atar Singh S/o Mr. Jeeva Rs. 23,44,250 /- (Rs. 21.08.2024 0100129945 Ram (as Borrower) and Mrs. Twenty Three Lakh &TCHIN03700 Rani Kumari W/o Mr. Atar Singh Forty Four Thousand

00100133402 and Mr. Ram Sevak S/o Mr. Two Hundred Fifty Jeeva Ram (as Co Borrower) Only) as on 13/05/2024 Description of Secured Assets/Immovable Properties: All that Piece & Parcels of Residential Plot Situated on Khasra No. 81, Admeasuring 137.71 Sq. Yards i.e. 115.14 Sq. Mtrs., Situated at Mauza Chak Panch, Ram Bharose Nagar, Near Saraswati Vihar Colony Tehsil and District Agra - 282001 (Uttar Pradesh), along with common amenities as

mentioned in Sale Deed. Bounded As: East - Plot of Barfi Devi, West - Others, North - 12'

Road, South - Other's Plot. Date: - 25/08/2024 Sd/- Authorised Officer, Place: - Agra (Uttar Pradesh) For Tata Capital Housing Finance Limited



Home First Finance Company India Limited CIN: L65990MH2010PLC240703

Website: homefirstindia.com

Phone No.: 180030008425 Email ID: loanfirst@homefirstindia.com

POSSESSION NOTICE REF: POSSESSION NOTICE UNDER SUB-RULE (1) OF RULE 8 OF THE SECURITY INTEREST (ENFORECEMENT) RULES, 2002

WHEREAS the undersigned being the Authorized Officer of HOME FIRST FINANCE COMPANY INDIA LIMITED, pursuant to demand notice issued on its respective dates as given

below, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 calling upon you/Borrowers, the under named to pay outstanding dues as within 60 days from the date of receipt of respective notices. You/Borrowers all, however, have failed to pay the said outstanding dues within stipulated time, hence HOME FIRST FINANCE COMPANY INDIA LIMITED are in exercise and having right as conferred under the provision of sub section (4) of section 13 of SARFAESI ACT, 2002 read with rules thereunder, taken POSSESSION of the secured assets as mentioned herein below:

S. No	Name of Borrowers/ Co- Borrowers/ Guarantors	Description of Mortgaged Property	Date of Demand Notice	Total O/s as on date of Demand Notice (in INR)	Date of possession
1.	Ashok Kumar, Lokesh	Flat-TF 3 Front RHS, 3rd floor, Plot no - B-8, Khasra no -1001, Janakpuri colony, village- Pasonda, pargana- Ioni, tehsil & Distt- Ghaziabad, Uttar Pradesh, 201005	03-Jun-23	10,81,832	22-Aug-24

he borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower / Guarantor and the public in general that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rule on the date mentioned above.

The BORROWERS/ GUARANTORS and the PUBLIC IN GENERAL are hereby cautioned not to deal with the above referred Properties/Secured Assets or any part thereof and any dealing with the said Properties/Secured Assets shall be subject to charge of HOME FIRST FINANCE COMPANY INDIA LIMITED for the amount mentioned hereinabove against Properties/Secured Assets which is payable with the further interest thereon until payment in full.

The borrower's attention is invited to the provisions of subsection (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset Place:- NCR

Authorised Officer, Date: 25-08-2024

LIC Housing Finance Limited

AREA OFFICE: HALDWANI: Pilikothi, Near E.N.T. Hospital, Kaladhungi Road, Haldwani-263139

POSSESSION NOTICE (For Immovable Properties under Rules 8 (1)

Where as the undersigned being the Authorized Officer of LIC Housing Finance Limited under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule-3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice on the date mentioned against account and stated hereunder calling upon the borrowers/ $\,$ guarantors/ $\,$ mortagagors to repay the amount mentioned in the notice being together with further interest at contractual rate on the aforesaid amount and incidental expenses, costs, charges etc. within sixty days from the date of receipt of said notice. The borrowers/guarantors/mortgagors having failed to repay the amount notice is hereby given to the borrowers/guarantors/mortgagors and the public in general that the undersigned has taken the possession of the Properties described herein below in exercise to powers conferred on him/her under section 13(4) of the said act read with the Rule-8 of the said Rules on the date mentioned hereunder. The borrowers/guarantors/mortgagors in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the properties. Any dealing with the properties will be subject to the charge of LIC Housing Finance Limited for the amounts and interest thereon. Details of the mortgaged

	Borrower/Guarantor	Description of the Immovable Property	Date of Demand Notice	Date of Possession	Outstanding Amount	
1.	(Borrower), Acount No. 110700001897	of Pvt. Plot No. C-3, Khet No. 49/1 Mi, Village Matkota, Tehsil Kichcha, Udham Singh Nagar, Ut Ram S/o Mr. Munna Lal. Bounded As-East- Plot No.	tarakhand, C-4, West-	Symbolic Possession	Rs. 43,95,805.69 + Interest & Expenses Thereon	
2.	Borrower: Mr. Kishor Ray S/o Mr. Gopal Ray (Borrower), Co-Borrower: Mr. Gopal S/o Mr. Niranjan Ray (Co-Borrower), Guarantor: Mr. Virendra Sarkar S/o Mr. Khokhan Sarkar (Guarantor), Acount No. 110700008831	of Khet No. 389 Mi, Village Srirampur, Tehsil Rudrapur, Distt. Udham Singh Nagar, Uttarakhand, Area - 188.19 Sq. Mtr., In the	ded As- Eas	Symbolic Possession st- Land of	Rs. 31,30,496.14 + Interest & Expenses Thereon	
3.	Borrower: Mr. Mohammad Athar S/o Mr. Abdul Wari (Borrower), Guarantor: Mr. Ramesh Kumar S/o Mr. Nain Ram (Guarantor), Acount No. 110700009040	All That Part And Parcel of Equitable Mortgaged of Gata/Khet No. 447 Min, Ward No. 7, Kichha, Tehsil Kichha, Distt. Udham Singh Nagar, Area - 130.11 Sq. Mtr., In the Name of Mr. Mohammad Athar S/o Mr. Abdul Wari. Bounded As-East - Plot Remaining Area of Seller, North- 6.09 Mtr. Remaining Area of Seller.		Symbolic Possession oner, West -	Rs. 15,96,850.00 + Interest & Expenses Thereon	
4.	Borrower: Mr. Akhilesh Kumar S/o Mr. Shiv Kumar (Borrower), Co- Borrower: Mrs. Shikha Devi W/o Mr. Akhilesh Kumar (Co- Borrower), Guarantor: Mr. Narenda Kanyal S/o Mr. Kusha Ram (Guarantor), Acount No. 110700013494	Shikha of Vill Jay Nagar, Tehsil -Rudrapur, Distt. Udham Singh Nagar, Arazi Khata No. 00112, Khasra No. 91 G Min, Area 84.57 Sq. Mtr., In the Name of Mrs. Shikha Devi W/o Mr. Akhilesh Kumar D/o Mr. Ajay Kumar Dwivedi.		Rs. 21,71,436.90 + Interest & Expenses Thereon		
5.	Borrower: Mr. Mahendra Singh S/o Mr. Kheem Singh (Borrower), Co- Borrower: Mrs. Gurmeet Kaur W/o Mr. Mahendra Singh (Co- Borrower), Acount No. 110700008735 Bounded As- East-Land of Trilok Singh, West- Land	All That Part And Parcel of Equitable Mortgaged Property of Khet No. 159 & Khet No. 170 Mi, Village Haripur Phutkunwa, Tehsil Haldwani, Distt. Nainital, Uttarakhand.Area 950 Sq. Mtr., In the Name of Mr. Mahendra Singh S/o Mr. Khee nd of Jeet Singh, North - Land of Jeet Singh, South	m Singh.	21.08.2024 Symbolic Possession esta.	Rs. 18,31,053.24 + Interest & Expenses Thereon	
6.	Borrower: Mrs. Kanchan D/o Mr. Ram Prakash (Borrower), Guarantor: Mr. Subhash Chand Swami S/o Mr. Makhhan Singh (Guarantor), Acount No. 110700008447 of Mrs. Kanchan D/o Mr. Ram Prakash. Bounded Land of Devendra Singh, South-Road	All That Part And Parcel of Equitable Mortgaged of Khata No. 89, (Fasli Year 1424-1429), Khasrano. 126 Mi, Village Chandni Chowk, Balyutiya, Pargana Bhavar Chah Khata, Tehsil Haldwani, Distt. Nainital, Uttarakhand, Area 95.2	6 Sq. Mtr., In		Rs. 28,92,536.29 + Interest & Expenses Thereon	
7.	Borrower: Mr. Navtesh Arora S/o Mr. Subhash Arora (Borrower), Co-Borrower: Mrs. Anupama Arora W/o Mr. Navtesh Arora (Co-Borrower),	All That Part And Parcel of Equitable Mortgaged of Flat No. N-16/2, On First Floor in Multistory Building Built Over Khasra No. 106, Village	08.01.2024	21.08.2024 Symbolic Possession	Rs. 38,91,564.70 + Interest & Expenses	

Haripur Futkunwa, Pargana-Bhavar Chahkhata,

Name of Mrs. Anupama Arora W/o Mr. Navtesh Arora. Bounded As-

East-Flat No. 27 & 28, West- Road 9 Mtr. Wide, North- Flat No. 15/2,

Guarantor: Mr. Nitin Bajaj S/o Mr. Ashok Kumar Tehsil Haldwani, Distt. Nainital, Uttarkhand, Area - 78.38 Sq. Mtr., In the

South- Flat No. N-17/2

CHOB SUNANCIAL

HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED

Home First Finance Company India Limited E-AUCTION SALE

Registered Office: Radhika, 2nd Floor, Law Garden Road, Navrangpura, Ahmedabad-380009 BRANCH OFFICE: HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED, Khasra No. 47, Opposite Dussehra Ground, Budella, Near Oxford School, Vikaspuri, New Delhi-110018

NOTICE UNDER SARFAESI ACT, 2002 The Undersigned As Authorized Officer Of Hob Financial Services Limited Has Taken Over Possession Of The Following Property Pursuant To The Notice Issued U/s 13(2) Of The Securitisation And Reconstruction Of The Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act 2002 In The Following Loan Accounts With A Right To Sell The Same On "as Is


Where Is Basis" And "as Is What Is Basis" For Realization Of Company's Dues. 1. BORROWER/S & GUARANTOR/S NAME & ADDRESS 2. 1. DATE & TIME OF E-AUCTION 1. RESERVE PRICE **DESCRIPTION OF THE** 2. EMD OF THE 2. LAST DATE OF SUBMISSION TOTAL DUE+ INTEREST FROM PROPERTY PROPERTY 3. DATE & TIME OF THE PROPERTY INSPECTION

V3 Mobi Communications Private Limited - E-12/2, Sector 1, First All that parts and parcel of the Shop/office/Store 1) E-AUCTION DATE: 10.09.2024 Reserve Price (IN INR): floor, Noida 201301 Also At - Shop No LG 04-GNS Plaza Plot No | bearing No. LG-04, on Lower Ground -10 .30 AM to 5.PM WITH Rs. 17842782/- (Rupees S7/2, site 4, Greater Noida 201301 Om Prakash Singh S/o Shri Raja | Floor(Basement), in commercial Building known as | UNLIMITED EXTENSION OF 5 | One Crore Seventy Eight Pal Singh - Flat No-610 Technilogy Apertment Plot No-24 I.P Extn | Greater Noida Shopping Plaza, Situated at Plot No S- MINUTES |
Delhi Delhi-110092 Also At : R/o 04, saya Ambedkar Nagar, UP | 7/2, in Industrial Area, Suraj Pur Site-IV, in Village | 2) LAST D Lakh Forty Two Thousand 2) LAST DATE OF SUBMISSION Seven Hundred Eighty 224152 Also at E-12/2 Sector-1 First Floor Noida -201301 Priyanka Kasna, Pargana/Tehsil Sadar, District Gautam Budh Two Only) OF EMD WITH KYC 09.09.2024--Paul, -Flat No-610 Technilogy Apertment Plot No-24 I.P Extr. Delhi Nagar, U.P., admeasuring Total super area 467.936 TILL 5 PM EMD Amount(IN INR): Delhi-110092. Loan Account No.: 3280978 Rs.1,32,88,279.84 Square meters (140.521 Sq. mtr. Carpet Area + Rs 1784278/- (Rupees 3) DATE OF INSPECTION (Rupees One Crore Thirty Two Lakh Eighty Eight Thousand Two 327,415 sq.trs. Common Area) be the same a title Seventeen Lakhs Eighty Hundred Seventy Nine and Paise Eighty Four) as of 09.06.2020 and more or less, as described above and bonded:- North:

PM TO 4:00 PM IST BETWEEN 05.09.2024 -- 12:00 Four Thousand Two future contractual interest till actual realization together with Lift South Outer Wall, East Shop No LG-03, West Hundred Seventy Eight : Outer Wall 10 Meter Road The intending bidders are advised to visit the Branch and the properties put up on Auction, and obtain necessary information regarding charges, encumbrances. The purchaser shall make his own enquiry and ascertain the additional charges, encumbrances and any third party interests and satisfy himself/herself/itself in all aspects thereto. All statutory dues like property taxes, electricity

dues and any other dues, if any, attached to the property should be ascertained and paid by the successful bidder(s)/prospective purchaser(s). The bidder(s)/prospective purchaser(s) are requested, in their own interest, to satisfy himself/herself/itself with regard to the above and the other relevant details pertaining to the above mentioned property/Properties, before submitting the bids. Terms & Conditions of Online Tender/Auction (1) The auction sale shall be "online e-auction" bidding through website https://www.bankeauctions.com/ on the dates as mentioned in the table above with Unlimited Extension of 5 Minutes. (2) The interested bidders shall submit their EMD through Web Portal: https://www.bankeauctions.com/ (the user ID & Password can be obtained free of cost by registering name with https://www.bankeauctions.com/) through Login ID & Password. The EMD shall be payable through NEFT in the account mentioned above After

Registration (One Time) by the bidder in the Web Portal, the intending bidder/ purchaser is required to get the copies of the following documents uploaded in the Web Portal before the Last Date & Time of submission of the Bid Documents viz. i) Copy of the NEFT/RTGS Challan or Demand Draft; ii) Copy of PAN Card; iii) Proof of Identification/ Address Proof (KYC) viz. self-attested copy of Voter ID Card/ Driving License/ Passport etc.; without which the Bid is liable to be rejected. UPLOADING SCANNED COPY OF ANNEXURE-II & III (can be downloaded from the Web Portal: tps//www.bankeauctions.com) AFTER DULY FILLED UP & SIGNING IS ALSO REQUIRED. The interested bidders who require assistance in creating Login ID & Password, uploading submitting Bid Documents, Training/ Demonstration on Online Inter-se Bidding etc., may contact M/s. C1 India Pvt Ltd. Plot No. 68 ,3rd Floor, Sector-44, Gurgaon- 122003, Haryana, E-mail ID :Vinod Chauhan/ delhi@c1india.com 9813887931 and for any property related query may contact Authorised Officer: MR. Vikas Anand; Mobile No: 9711010384, e-mail ID vikas.anand@hdbfs.com, and MR. Vishal Ritpurkar, Mobile No: 9833671006, e-mail ID: vishal.ritpurkar@hdbfs.com during the working hours from Monday to Saturday 3. The intending purchaser/bidder is required to submit amount of the Earnest Money Deposit (EMD) by way of Demand Draft/PAY ORDER drawn on any nationalized or scheduled Commercial Bank in favor of " HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED" payable AT PAR/New Delhi or NEFT/RTGS in the account of "HDBFS GENERAL COLLNS"; Account No 00210310002748; IFSC Code-HDFC0000021; MICR CODE: MICR500240002; Branch: LAKDIKAPUL, HYDERABAD; on or before date and time mentioned above (Please refer to the details mentioned in table above) and register their name at https://www.bankeauctions.com/ and get user ID and password free of cost and get training on e-Auction from the service provider. After their Registration on the website, the intending purchaser/bidder is required to get the copies of the following documents uploaded (1. Copy of the NEFT/RTGS challan/DD copy/ Pay order; 2. Copy of PAN card and 3. Copy of proof of address (Passport, Driving License, Voter's I-Card or Aadhar Card, Ration Card, Electricity Bill, Telephone Bill, Registered Leave License Agreement)) on the website before or by the last date of submission of the EMD(s) as mentioned in the table above and also submit hardcopy thereof at the Branch mentioned hereinabove (4) Bid must be accompanied with EMD (Equivalent to 10% of the Reserve Price) by way of Demand Draft/ Pay order in favour of "HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED" payable AT PAR/ New Delhi or NEFT/RTGS in the account of "HDBFS GENERAL COLLNS"; Account No 00210310002748; IFSC Code- HDFC0000021; MICR CODE: MICR500240002; Branch: LAKDIKAPUL, HYDERABAD; on or before date and time mentioned above. (5) Bids that are not filled up or Bids received beyond last date will be considered as invalid Bid and shall be summarily rejected. No interest shall be paid on the EMD. Once the bid is submitted by the Bidder, same cannot be withdrawn. If the bidder does not participate in the bid process, EMD deposited by the Bidder shall be forfeited without further recourse. However, EMD deposited by the unsuccessful bidder shall be refunded without interest. (6) The bid price to be submitted shall be above the Reserve Price alongwith increment value of Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand only) and the bidder shall further improve their offer in multiple of Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand only). The property shall not be sold below the Reserve Price set by the Authorised Officer. (7) The successful bidder is required to deposit 25% of the sale price (inclusive of EMD) immediately but not later than next working day by Demand Draft drawn in favour of of " HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED" payable AT PAR/ NEW DELHI or NEFT/RTGS in the account of "HDBFS GENERAL COLLNS"; Account No 00210310002748; IFSC Code-HDFC0000021; MICR CODE: MICR500240002; Branch: LAKDIKAPUL, HYDERABAD and the balance amount of safe price shall be paid by the successful bidder within 15 days from the date of confirmation of sale by the Company. The EMD as well as Sale Price paid by the interested bidders shall carry no interest. The deposit of EMD or 10% of sale price, whatever may be the case shall be forfeited by the Company, if the successful bidder fails to adhere to terms of sale or commits any default. (8) On compliance of terms of Sale, Authorised officer shall issue "Sale Certificate" in favour of highest bidder. All the expenses related to stamp duty, registration charges, conveyance, TDS etc. to be borne by the purchaser. (9) Company does not take any responsibility to procure permission / NOC from any authority or under any other law in force in respect of property offered or any other dues i.e. outstanding water/electricity dues, property tax or other charges, if any. (10) The successful bidder shall bear all expenses including pending dues of any Development Authority, if any/ taxes/ utility bills etc. to the Municipal Corporation or any other authority/ agency and fees payable for stamp duty /registration fees etc. for registration of the Sale Certificate. (11) The Authorised Officer reserves the absolute right and discretion to accept or reject any or all the offers/bids or adjourn/cancel the sale without assigning any reason or modify any terms of sale without any prior notice. The immovable property shall be sold to the highest bidder. However, the Authorised Officer reserves the absolute discretion to allow inter-se bidding, if deemed necessary (12) To the best of its knowledge and information, the Company is not aware of any encumbrances on the property to be sold except of the Company. However, interested bidders should make their own assessment of the property to their satisfaction. The Company does not in any way guarantee or makes any representation with regard to the fitness/title of the aforesaid property. For any other information, the Authorised Officer shall not be held responsible for any charge, lien, encumbrances, property tax or any other dues to the Government or anybody in respect of the aforesaid property. (13) Further interest will be charged as applicable, as per the loan documents on the amount outstanding in the notice and incidental expenses, costs, etc. is due and payable till its actual realization. (14) The notice is hereby given to the Borrower(s) / Mortgagor(s) to remain present personally at the time of sale and they can bring the intending buyer/purchasers for purchasing the immoveable property as described hereinabove, as per the particulars of the Terms and conditions of sale. (15) Online E-auction participation is mandatory in the auction process by making application in prescribed format which is available along-with the offer/tender document on the website. Bidders are advised to go through the website https://www.bankeauctions.com/ for detailed terms and conditions of auction sale before submitting their bids and taking part in e-auction sale proceedings. Online bidding will take place at web-site of organization as mentioned hereinabove, and shall be subject to the terms and conditions contained in the tender document. The Tender Document and detailed Terms and Conditions for the Auction may be downloaded from the website https://www.bankeauctions.com/ or the same may also be collected from the concerned Branch office of HDB Financial Services Limited. A copy of the Bid form along with the enclosure submitted online (also mentioning UTR Number) shall be handed over to Mr. Vikas Anand Mob. No. 9711010384; at HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED, ADDRESS-: , Khasra no. 47, 2nd Floor, Opposite Dussehra Ground, Vikaspuri, New Delhi-110018 on or before date and time mentioned above: (Please refer to the details mentioned in table above). (16) The property shall be sold on "As is Where is Basis" and "As is What is Basis" condition and the intending bidder should make discreet enquiries as regards encumbrance, charge and statutory outstanding on the property of any authority besides the Company's charges and should satisfy themselves about the title, extent, quality and quantity of the property before submitting their bid. No claim of whatsoever nature regarding the property put for sale, charges and encumbrances over the property or any other matter etc. will be entertained after submission of the online bid and at any stage thereafter. The Company shall not be responsible for anything whatsoever including damages or eviction proceeding, etc. The intending bidder shall indemnify the tenants as well as the Company in this regard. The purchaser shall take necessary action for eviction of tenant / settlement of tenant only in



Authorised Officer, LIC Housing Finance Ltd

Thereon



Place: New Delhi, Date: 25.08.2024

New Delhi

accordance with the Law. The Company presses into service the principle of caveat emptor. (17) This publication is also a '15' (Fifteen) days' of notice to the Borrower / Mortgagor / Guarantors of the

above said loan account pursuant to rule 6(2), 8(6) and Rule 9 of Security Interest. (Enforcement) Rules 2002, to discharge the liability in full and pay the dues as mentioned above along with upto date interest and expenses within '15' (Fifteen) days' of from the date of this notice failing which the Secured asset will be sold as per the terms and conditions mentioned above. In case there is any discrepancy between the publications of Sale notice in English and Vernacular newspaper, then in such case the English newspaper will supersede the vernacular newspaper and it shall be details and queries, contact Authorized Officer, HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED Mr Vikas Anand: 09711010384.

considered as the final copy, thus removing the ambiguity. If the borrower/mortgagors pays the amount due to the Company, in full before the date of sale, auction is liable to be stopped. For further AUTHORISED OFFICER, HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED

section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued

आदित्य बिड्ला फाइनेंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेथॉन कंपाउंड, वेशवल, गुजरात 362266 शाखा कार्यालयः तीसरी मंजिल, जीएस—ट्रेड सेंटर, 534—536, नेमी सागर कॉलोनी, वेशाली नगर, जयपुर—302021

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) [सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत]

जबकि अबोहस्ताक्षरे, विक्तिय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 64) के अंतर्गत आदित्य बिडला फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 05.01.2024 को एक मांग नोटिस जारी किया जिसमें उधारकर्ताओं अर्थात श्री राजेश शाह, श्री मोहित शाह, श्री मुदित शाह, श्रीमती नमता शाह, श्री मुरली मनोहर शाह और नेसर्स एम.आर. एंटरप्राइजेज को नोटिस में उल्लिखित राशि रु. 1,39,48,418 / -(एक करोड़ उनवातीस लाख अडतालीस हजार चार सौ अठारह मात्र) उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के मीतर चुकाने का आह्वान किया गया। तथारकर्ताओं द्वारा शनि वापस करने में असफल रहने के कारण, तथारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित, इस 23 अगरत 2024 की नीचे वर्णित

विशेष रूप से उपारकर्ताओं और आम जनता को संपत्ति से संबंधित कोई मी लेन-देन न करने की चैतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेंड द्वारा रू. 1,39,48,418 / - (एक करोड उनचालींस लाख अडतालींस हजार चार सी अठारह मात्र) की राशि और उस पर ब्याज के भार के अधीन होगा।

तथारकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की छप-धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण योजना एल.एस. नगर नया खेडा अंवाबाढी, सीकर रोड, जयपुर राजस्थान-302039 में प्लॉट नंबर वी-126

(जिसे बी-126 और बी-126ए के नाम से भी जाना जाता है) का पूरा हिस्सा।

अधिकृत अधिकारी (आदित्य बिडला फाइनेंस लिमिटेड) स्थान : जयपुर दिनांक : 23.08.2024

पैटबैक बिजनेस लिभिटेड

सीआईएनः L74999DL1984PLC018747 पंजी. कार्यालय: शॉप नं. 325, प्लॉट नं. 3, अग्रवाल प्लाजा, डीडीए कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर-14, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 र्इमेलः crazypricingdel@gmail.com, वेबसाइटः www.patback.in

40वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स पैटबैक बिजनेस लिमिटेड के सदस्यों की 40वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2024 को सुबह 11:00 बजे,स्थानः 325, प्लॉट नं. 3, अग्रवाल प्लाजा, डीडीए कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर–14, रोहिणी, नई दिल्ली–110085 ("बैठक") में आयोजित की जाएगी।

बैठक बुलाने की सूचना सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर कूरियर द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन सदस्यों को भेजी गई है, जिन्होंने कट—ऑफ तारीख यानी 16 अगस्त, 2024 तक डिपॉजिटरी / कंपनी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत किया है और सूचना प्रेषित की प्रक्रिया दिनांक 23 अगस्त, 2024 को भौतिक रूप से पूरी की गई। नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट (www.patback.in) पर उपलब्ध है।

कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ("ई–वोटिंग") द्वारा बैठक में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों पर वोट देने के उनके अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई–वोटिंग से संबंधित संचार, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यूजर आईडी और पासवर्ड शामिल है, एवं बैठक बुलाने की सूचना की एक प्रति के साथ सदस्यों को भेज दी गई है। ई-वोटिंग के लिए संचार का प्रारूप कंपनी की वेबसाइटः www.patback.in और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

रिमोट ई—वोटिंग सुविधा मंगलवार, 17 सितम्बर, 2024 को सुबह 9:00 बजे से शुरू होगी और गुरुवार 19 सितम्बर, 2024 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

एक व्यक्ति, जिसका नाम कट—ऑफ तिथि (रिकॉर्ड तिथि), यानी शूक्रवार, 13 अगस्त, 2024 को सदस्यों / लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देता है, केवल वही बैठक में रिमोट ई-वोटिंग / वोटिंग की स्विधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

कोई भी व्यक्ति जो बैठक की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट—ऑफ तिथि के अनुसार शेयर धारण करता है, वह अन्य बातों के साथ-साथ evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया बैठक की सूचना में भी प्रदान की गई है जो कंपनी की वेबसाइट और एनएसडीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि सदस्य ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, तो वह रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट दिया है, वे भी बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन दोबारा वोट देने के हकदार नहीं होंगे।

ईमेल पते का पंजीकरण: जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ईमेल पते पंजीकत नहीं किए हैं. उनसे अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते पंजीकृत करा लें। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे इसे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ('आरटीए') के साथ अपडेट करें।

बही बंदी : इसके अलावा नोटिस दिया जाता है कि अधिनियम की धारा 91 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, कंपनी के सदस्यों के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर बही, 40वीं एजीएम के प्रयोजन के लिए 14.09.2024 से 20.09.2024 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे। पैटबैक बिजनेस लिमिटेड के

निदेशक मंडल के आदेशानुसार हस्ता/-पवन कुमार मित्तल निदेशक

दिनांक: 23.08.2024 स्थानः नई दिल्ली

डीआईएन : 00749265

PRO CLB GLOBAL LIMITED

(FORMERLY PROVESTMENT SERVICES LIMITED) CIN: L74899DL1994PLC058964 Regd. Office: 5/34, Third Floor, Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi 110005 | Email : deepika.proclbglobal@gmail.com Ph: +91 9582325860 | Website: www.proclbglobal.com

Information Regarding 30th Annual General Meeting of PRO CLB GLOBALLIMITED

NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, September 16, 2024 at 10:00 A.M.(IST) at B-4/148C Safdarjung Enclave, New Delhi-110029,to transact the business (es) as set out in the Notice of the AGM which is being sent to the members by E-mail.

30th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, September 16, 2024 at 10:00A.M. IST.

The Said Notice along with Annual Report for the Financial Yearwill be sent only by the electronic mode to all the Members at their registered email-ids and the same is also available on the website of the Company at www.proclbglobal.com .The Notice of AGM is also available on the website CDSL at www.evotingindia.com

 Shareholders will have an opportunity to cast their vote on the businesses as set forth in the Notice of the AGM through remote e-voting System. The Log in credentials for casting the votes through remote e-voting shall be made available to the shareholders through e-mail. The detailed procedure for casting the votes through remote e-voting and voting system shall be provided in the Notice of the

Members who have not registered their email addresses, so far, are also requested to register their email address in respect of electronic holdings with depository through their concerned Depository Participants. Members who hold their shares in physical form are requested to get their email id registered, by providing necessary details like Folio No., Name of the Member, Mobile No. And Email Id with M/s. Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd (Registrar & Transfer Agent of the Company) or sent details on deepika.proclbglobal@gmail.com

NOTICE FOR 30th(ANNUAL GENERAL MEETING) AGM, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting(AGM) of the Companywill be held on Monday, September 16, 2024 at 10:00 A.M.at B-4/148C Safdarjung Enclave, New Delhi-110029to transact the business (es) as set out in the Notice dated August 22, 2024. The said Notice along with Annual Report has been sent to all the Members at their registered email-ids by August 24, 2024 and the same is also available on the website of the Company atwww.procloglobal.com. The Notice of AGM is also available on the website CDSL at www.evotingindia.com

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of Members and Share transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, September 10, 2024 to Sunday, September 15, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM of the Company for the year ended March 31, 2024.

As permitted under Rule 11 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the Annual Report for the year 2024 have been sent electronically on August 24, 2024 to those members who have registered their e-mail id addresses with M/s. Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd (Registrar & Transfer Agent of the Company).

Members who have not registered their email addresses, so far, are also requested to register their email address in respect of electronic holdings with depository through their concerned Depository Participants. Members who hold their shares in physical form are requested to get their email id registered, by providing necessary details like Folio No., Name of the Member, Mobile No. And Email Id with M/s. Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd(beetalrta@gmail.com) or sent details on deepika.proclbglobal@gmail.com

Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014;

 a) The Company is providing remote e-voting facility to its Members to cast their vote by electronic means on the Resolutions set out in the Notice of the 30th AGM dated

 b) Commencement of remote e-voting: Friday, September 13,2024 10:00 Hrs (IST) c) End of remote e-voting: Sunday, September 15, 2024 17:00 Hrs (IST)

d) Record Date/Cut-off date: September 09, 2024.

Date: 24.08.2024

Place: New Delhi

 Remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting after 17:00 Hrs (IST). on Sunday, September 15, 2024.

The result of the Remote E-voting /voting shall be declared on or before September 2024. The Result declared, along with Scrutinizer Report will be available at the Registered Office of the Company and also be placed on the Company's website and communication to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed.

> By order of the Board For PRO CLB GLOBAL LIMITED (Formerly Provestment Services Limited)

Deepika Rajput (Company Secretary & Compliance Officer) रिच यूनिवर्स नेटवर्क लिमिटेड

CIN: L51100UP1990PLC012089, (पूर्व की रिच कैपिटल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड) पंजीकृत कार्योलयः ७/125, सी-2, द्वितीय तल, स्वरूप नगर, कानपुर - 208002, टेली फैक्स: 0512-2540293, ई-मेल: rcfsl@rediffmail.com, वेबसाइटः www.richuninet.com

34वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी और बक क्लोजर

तदुद्वारा सूचित किया जाता है किः

कंपनी की 34वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, सितंबर 2024 को शाम 4:15 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय द्वितीय तल 7/125, सी-2, स्वरूप नगर, कानपुर - 208002 में उक्त एजीएम की बैठक की सूचना दिनांक 08 अगस्त, 2024 में उल्लिखित कारोबार करने के लिए आयोजित की जाएगी। संबंधित परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए एजीएम की सुचना और वित्तीय विवरण (स्टैंडअलोन), बोर्ड की रिपोर्ट, ऑडिटर की रिपोर्ट और इसके साथ संलग्न किए जाने वाले अन्य दस्तावेजों वे साथ. कंपनी के उन सभी सदस्यों को भेज दिए गए हैं जिनका ईमेल पता कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के साथ पंजीकत है उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट और स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी

थासंशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 10 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधान और सेबी (सुचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्ट और शेयर हस्तांतरण रजिस्टर एजीएम के उद्देश्य से 11 सितंबर, 2024 से 18 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे। म्थासंशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 वे गवधानों और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 44 के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यं को नेशनल सर्विसेज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के माध्यम से नोटिस में उल्लिखित सभी व्यवसाय करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सुविधा (रिमोट ई-वोटिंग) सहर्ष प्रदान कर रही है। सभी सदस्यों को सचित किया जाता है कि:-

(क) रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम में मतदान के माध्यम से सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की कटऑफ तिथि 11 सितंबर, 2024 है (ख) रिमोट ई-वोटिंग 15 सितंबर, 2024 को सुबह 09:00 बजे भा.मा.स. से शुरू होगी और 17 सितंबर, 2024 को शाम 05:00 बजे भा.मा.स. पर समाप्त होगी। उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनमति नहीं दी जाएगी।

्ग) कोई व्यक्ति, जिसने ईमेल भेजने की तिथि यानी 23 सितंबर, 2024 के बाद शेयर खरीदे हैं और कंपनी का सदस्य बन गया है औ कटऑफ तिथि यानी 11 सितंबर, 2024 तक शेयर धारण कर रहा है, www.evoting.nsdl.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन करने की प्रक्रिया प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए पहले से ही ठरउछ के साथ पंजीकृत है, तो वह ई वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए अपनी मौजूदा लॉगिन आईडी/यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। ।) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत∕अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार की वेबसाइट www.skylinerta.com पर जाएं, ईमेल पंजीकरण पर क्लिक करें और उसमें आवश्यव

ङ) डीमैटरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है वि वे डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट करें, जिनके साथ वे अपने डीमैट खारं

च) एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.richuninet.com और एनएसडीएल वेबसाइट www.evoting.nsdl.con

पर उपलब्ध है (छ) इलेक्टॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया 34वीं वार्षिक आम बैठक की सचना में तथा सदस्यों को भेजे गए ईमेल में तथा एनएसडीएल क वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है। ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्

evoting@nsdl.co.in तथा/या rcfsl@rediffmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं। 🛾 सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दिए गए सभी नोट्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा विशेष रूप से एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या बैलेट पेपर के माध्यम से वोट डालने के तरीके को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

> बोर्ड के आदेशानुसार रिच युनिवर्स नेटवर्क लिमिटेड शाश्वत अग्रवाल

> > प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 00122799

स्थानः कानपुर तिथि : 23.08.2024

कान्टीनेंटल सिक्योरिटिज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: फ्लैट र्न. 301, मेट्रो प्लाजा, परिवहन मार्ग, जयप्र-302001 (राजस्थान), ई: मेल: continentalsecuritieslimited@gmail.com, चेक्साईट : www.continentalsecuritiesltd.com 1874: 0141-2943037, CIN: L67120RJ1990PLC005371

34वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम), ई-वोटिंग संबंधी सूचना एवं लेखा बही बंदीकरण के संबंध में सुचना

इसकें द्वारा सचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 खसेबी (एलओडीआर) विनियम, के प्रावधानों के अनुपालन में कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटीज लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की 34वीं वार्षिक आम बैठक बुधवार, 18 सितंबर, 2024 को दोपहर 02:00 बजे IST वीडियो कॉन्फ्रॅसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विज्अल साधनों (ओएवीएम) की सुविधा के माध्यम से एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी, जैसा कि 24.08.2024 को आयोजित उनकी बोर्ड बैठक में निदेशक मंडल द्वारा तय किए गए 34वें एजीएम के नोटिस में निर्धारित

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की 34वीं एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सुचना ई-बोटिंग विवरण सहित वीसी/ओएबीएम सविधा के माध्यम से 34वीं एजीएम में शामिल होने के लिए लागिन विवरण के साथ उन सभा सदस्या का जिनका है-मल पता कंपनी या राजस्टार आर प्रायर टासफ एजेंट या उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) के साथ एमसीए सर्कलर और सेबी सर्कलर के अनुसार पंजीकृत है उन्हें ई-मेल के माध्यम से शनिवार, 24 अगस्त, 2024 को भेज दी गई है। यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.continentalsecuritiesItd.com स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा सेन्टल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है ।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की घारा 108 के प्रावधानों, सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक-2 और एमसीए परिपन्नों के अनपालन में सदस्यों को रिमोट ई-बोटिंग (एजीएम से पहले) और ई-बोटिंग (एजीएम के दौरान) सेवाओं के माध्यम से सीडीएसएल द्वारा 33वीं एजीएम के नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है ।

रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 15 सितंबर 2024 (प्रात: 10 बजे आईएसटी) से प्रारम्भ होगी और मंगलवार 17 सितंबर 2024 (सार्य 5:00 बजे आईएसटी) को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, सदस्य इलेक्टॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद, सीडीएसएल द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट इं-वोटिंग मॉडबल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-बोटिंग द्वारा अपना बोट डाला है, वे भी बीसी/ओएबीएम सविधा

के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। एक बार जब सदस्य किसी प्रस्ताव पर बोट दे देता है, तो उसे बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी

रिमोट ई-बोटिंग, एजीएम में शामिल होने और एजीएम के दौरान ई-बोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश दिनांक 24.08.2024 की 34वीं एजीएम के सुचना में दिए गए हैं श्री अजय खंडेलवाल प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जयपुर को संपूर्ण ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और

पारदर्शीं तरीके से जांच करने के लिए कंपनी द्वारा के स्कृटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया है। सदस्यों को वोटिंग अधिकार बधवार, 11 सितंबर, 2024 (कट-ऑफ तिथि) को कंपनी के पेड-अप इक्किटी शेयर पंजी के अपने शेयरों के अनपात में होंगे । एक व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टार में या कट-ऑफ तिथि के अनुसार डिपॉजिटरीज द्वारा बनाए गए लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है वे ही केवल एजीएम में शामिल होने के लिए अधिकृत होंगे, रिमोट ई-बोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-बोटिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है। इस नोटिस को केवल सुचना जानकारी के उद्देश्य से समझे ।


कृते कान्टीनेंटल सिक्योरिटिज लिमिटेड

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 24.08.2024

स्थान : जयपर

प्रविता खण्डेलवाल (कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)



SEASONS TEXTILES LIMITED



CIN -L18101DL1986PLC024058 Regd. Off: 26, Feroze Gandhi Road, Lower Ground Floor, Lajpat Nagar - III, New Delhi -110 024 Phone: 0120-4690000, Fax: 0120-4351485, Website: www.seasonsworld.com, E mail: cs.stl@seasonsworld.com

NOTICE OF 38TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE NOTICE is hereby given that the 38" Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Seasons Textiles Limited will be held on Friday, 27th September 2024, at 11:30 AM, through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OVAM") facility, to transact the

business as set out in the Notice of the AGM. The venue of the meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company, at 26, Feroze Gandhi Road, Lower Ground Floor, Lajpat Nagar - III, New Delhi - 110 024 Pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013, Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8" April 2020, 13th April 2020 and 5th May 2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No.

SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12" May 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India, the 38th AGM of the Company is being held on Friday, 27"

September 2024, at 11:30 AM, thorough VC/OAVM, without the physical presence of the Members. Further, electronic copies of the Annual Report of the Company, for the financial year 2023. 2024 which comprises of Notice for calling the 38" AGM, Directors' Report, Audited Standalone Financial Statements, and Auditors Reports thereon, have been sent Saturday 24 August, 2024, to all the Members whose Email IDs are registered with the Company/Depository Participants/ Skyline Financial Services Private Limited ("Registrar & Transfer Agent"). It is also available on the Company's website, www.seasonsworld.com

of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited at www.bseindia.com, Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-of Date, i.e., Friday 20" September 2024, may cast their vote electronically on the businesses as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system of CDSL ("Remote e-

website of Central Depository Services Limited (CDSL), www.evotingindia.com and website

Voting"). All the Members are hereby informed that: 1. The business, as set out in the Notice of the AGM, may be transacted through Remote e-

Voting or e-Voting system at the AGM; The Remote e-Voting shall commence on Tuesday, September 24, 2024 at 10:00 A.M.

(IST) and ends on Thursday, September 26, 2024 at 05:00 P.M. (IST).: 3. The Cut-off Date for determining the eligibility to vote by Remote e-Voting or e-Voting

system at the AGM shall be Friday 20" September 2024; Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the

company after circulation of the Notice of AGM and holding shares as on Cut-off Date, i.e., Friday 20th September 2024 may obtain the login ID and password by sending a request at you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no: 1800 21 09911 However, if a person is already registered with CDSL for e-Voting then the existing user ID and password can be used for casting the vote;

Members may note that: a) The Remote e-Voting module shall be disabled by CDSL after 5:00 PM on 26" September 2024. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently;

 b) the facility for voting electronically will be made available during the AGM; c) the Members who have cast their vote by Remote e-Voting prior to the AGM, may also

attend the AGM through VC/OAVM, but shall not be entitled to cast their vote again; and d) a person those names is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the Cut-off Date only shall be entitled to avail the facility of Remote e-Voting or e-Voting at the AGM,

The detailed procedure and instructions for Remote e-Voting and e-Voting during the AGM are given in the Notice of the AGM.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed

to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25" Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai-400013 or send an email to helpdesk evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 21 09911 or write to the Company at cs.stl@seasonsworld.com. The results shall be declared not later than forty-eight hours from conclusion of the Meeting.

The results declared along with Scrutinizers Report will be placed on the website of the Company at www.seasonsworld.com immediately after the results are declared and will simultaneously be forwarded to BSE Limited, where the equity shares of the Company are listed and shall be displayed at the Registered Office as well at the Corporate Office of the Company.

NOTICE OF BOOK CLOSURE: Notice hereby given under Section 91 of Companies Act, 2013 and Rule Made thereunder the

Date: 24/08/2024

Place: Noida

Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 21, 2024, to Friday, September 27, 2024 (both days inclusive).

> For Seasons Textiles Limited SAURABH ARORA Company Secretary and Compliance Officer

By order of the Board

www.readwhere.com

🔃 परफेक्टपैक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः ९१०, चिरंजीव टॉवर-४३, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-११००१९ ई-मेल आईडी: complianceofficer@perfectpac.com, वेबसाइट: www.perfectpac.com सीआईएनः L72100DL1972PLC005971, फोन नंबरः 011-26441015-18

52वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और रिमोट

ई—वोटिंग की जानकारी कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 के साथ पढ़ें, समय-समय पर जारी किए गए बाद के परिपत्रों के साथ पढ़ें. नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या 09 / 2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 ('एमसीए परिपत्र') और सेबी सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी१ / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांक 12 मई, 2020 और समय–समय पर जारी किए गए बाद के परिपत्र हैं, नवीनतम सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडीपीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 167 दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 ('सेबी परिपत्र') (एमसीए परिपत्र और सेबी परिपत्रों को सामूहिक रूप से 'परिपत्र' के रूप मे संदर्भित किया जाता है), इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि परफेक्टपैक लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की पचासवीं (52वीं) वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') बुधवार, 18 सितंबर, 2024 को दोपहर 02:00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('वीसी/ओएवीएम') के माध्यम से, एजीएम में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, 52वीं एजीएम बुलाने की सूचना ('एजीएम नोटिस') में निर्धारित व्यवसाय(व्यवसायों) को पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा।

परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट ('वार्षिक रिपोर्ट') के साथ एजीएम नोटिस केवल उन सदस्यों को इलेक्टॉनिक मोड के माध्यम से भेजा गया है. जिनकी ईमेल आईडी कंपनी / रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') / डिपॉजिटरी प्रतिभागी ('डीपी') के साथ पंजीकृत हैं। सभी सदस्यों को एजीएम नोटिस की ईमेलिंग 24 अगस्त, 2024 को पूरी हो गई है। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट https://perfectpac.com/annualreports.aspx, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं।

ईमेल पता, मोबाइल नंबर और बैंक खाता अधिदेश पंजीकृत / अद्यतन करने का तरीका जिन सदस्यों की ईमेल आईडी पहले से ही कंपनी/आरटीए/डीपी के साथ पंजीकृत हैं, वे एजीएम नोटिस में दिए गए दरस्थ ई–वोटिंग के साथ–साथ एजीएम में ई–वोटिंग के निर्देशों का पालन कर

सकते हैं। जिन सदस्यों ने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे नीचे उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कंपनी से वार्षिक रिपोर्ट, नोटिस आदि सहित सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से

प्राप्त करने के लिए इसे पंजीकृत करें: -कंपनी के भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सदस्य कंपनी के आरटीए, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ parveen@skylinerta.com पर निर्धारित फॉर्म आईएसआर-1 और अन्य प्रासंगिक फॉर्म में विवरण पंजीकृत/अपडेट कर सकते हैं। सदस्य कंपनी की वेबसाइट https://perfectpac.com/updationofkyc.aspx से निर्धारित फॉर्म डाउनलोड

कर सकते हैं। कंपनी के इक्विटी शेयर डीमैट रूप में रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डीपी से संपर्क करें और डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया का पालन करें।

दूरस्थ ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए निर्देश कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानकों और सेबी (स्चीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (स्चीबद्धता विनियम) के विनियम 44, जैसा कि संशोधित किया गया है, एमसीए परिपत्रों के साथ पठित, सदस्यों को एजीएम नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर रिमोट ई-वोटिंग सुविधा (एजीएम से पहले) और ई-वोटिंग सुविधा (एजीएम में) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाएगी। वोट डालने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाएगी। एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा उन सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट किया है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। हालाँकि, वे एजीएम में वोट करने के पात्र नहीं होंगे। सभी सदस्यों को सचित किया जाता है कि:

एजीएम नोटिस में निर्धारित व्यवसाय ई–वोटिंग के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के माध्यम से किया जाएगा। सदस्य(ओं) के मतदान अधिकार कट—ऑफ तिथि यानी बुधवार, 11 सितंबर, 2024 को कंपनी की

चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। कोई भी व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को कंपनी का सदस्य है, वह एजीएम नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से इलेक्टॉनिक रूप से वोट डालने के लिए पात्र है।

कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी द्वारा एजीएम नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी बधवार. 11 सितंबर. 2024 को शेयर धारण करता है, वह अपना वोट डालने के लिए अपना फोलियो नंबर/डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी बताते हुए evoting@nsdl.com या admin@skylinerta.com पर ईमेल भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकत है तो वोट डालने के लिए मौजदा यजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि रविवार, 15 सितंबर, 2024 को सुबह 09:00 बजे (आईएसटी) से शुरू होगी और मंगलवार, 17 सितंबर, 2024 को शाम 05:00 बर्ज (आईएसटी) समाप्त होगी। इसके बाद वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में उसमें बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी।

इस अवधि के दौरान, भौतिक रूप में या अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले सदस्य एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं।

सदस्यों को एजीएम में ई-वोटिंग की सविधा प्रदान की जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले वे सदस्य जिन्होंने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है वे जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट किया है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र

होंगे। हालांकि, वे एजीएम में वोट करने के पात्र नहीं होंगे। रिमोट ई-वोटिंग, एजीएम में ई-वोटिंग की विस्तत प्रक्रिया और तरीके और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश एजीएम नोटिस में दिए गए हैं और कंपनी की वेबसाइट

https://perfectpac.com/annualreports.aspx और एनएसडी की

www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं। सदस्य एजीएम नोटिस में उल्लिखित दस्तावेज प्रदान करके ई-वोटिंग के लिए यजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.com पर अनरोध भेज सकते हैं। o.ई—वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, कृपया www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता

evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजें, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से जुड़ी शिकायतों को 1.कंपनी के निदेशक मंडल ने श्री रिव शर्मा (एफसीएस सं.4468, सी.पी. सं. 3666), और / या सुश्री स्मन पांडे (एफसीएस सं. 7606, सी.पी. सं.रू 8404) को मेसर्स का भागीदार नियुक्त किया है। मेंसर्स आरएसएम एंड कंपनी. कंपनी सचिवों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से दूरस्थ ई-वोटिंग

पुस्तिका देखें या टोल फ्री नंबर: 022 – 48867000 और 022 – 24997000 पर कॉल करें या

और एजीएम में ई-वोटिंग की प्रक्रिया की जांच करने के लिए जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया

2. परिणाम लागू कानूनों के तहत निर्धारित समय के भीतर घोषित किए जाएंगे और उन्हें, समेकित जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ, कंपनी की वेबसाइट www.perfectpac.com, एनएसडीएल की www.evoting.nsdl.com पर रखा जाएगा और बीएसई लिमिटेड को www.bseindia.com पर सचित किया जाएगा।

परफेक्टपैक लिमिटेड के लिए

कंपनी सचिव

ऋण वसुली अधिकरण-II, दिल्ली

चौथा तल. जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

मद सं. 19

टीए/1032/2022 मामले में: सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम प्रवीण कुमार

श्री अविनाश कश्यप, आवेदक बैंक के काउंसल

प्रतिवादी के लिये कोई नहीं


यह मामला आज विडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा लिया गया है यह एक हस्तानांतरित मामला है।

आवेदक बैंक के विद्वान काउंसल के अनुरोध पर रजिस्ट्री को "फाइनांसियल एक्स्प्रैस"-अंग्रेजी समाचार पत्र तथा ''जनसत्ता'' - हिन्दी समाचार पत्र-दिल्ली एवं एनसीआर संस्करण जिसका अपने संबंधित क्षेत्रों में व्यापक प्रसार-प्रचार है में प्रकाशन के द्वारा सर्व कराने के लिये आदेश तिथि 12.01.2022 तथा 14.07.2022 के अनुसार प्रतिवादियों को सूचनाएं पुनः जारी करने का निर्देश दिया जाता है तथा बैंक उसे ई-मेल/भौतिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदक बैंक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादियों को सुनवाई की अगली तिथि से कम से कम एक माह पूर्व सूचनाऐं प्राप्त हो सकें।

प्रतिवादियों को पोस्टिंग के सर्टिफिकेश्न के अंतर्गत प्रेषित हो तथा प्रेषण के प्रमाण के साथ साईटेशन इस मामले में निर्धारित अगली तिथि को या उससे पूर्व रजिस्ट्री में दाखिल की जाये।

साथ ही, आवेदक बैंक को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया जाता है कि साईटेशन की एक प्रति

आवेदक बैंक द्वारा प्रकाशन के प्रमाण को दाखिल करने के लिये यह मामला 3.9.2024 के लिये सचीबद्ध किया गया है।



जनसता

Sd/- (Deepak Kr. Raikwar) AR / Registrar I/C, DRT-II, Delhi

E-MA CHATED

बाएएमपोएसएल सिक्योरिटीज लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 100ए - साइकिल मार्केट, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 | फोन नं.: 9810017327

ई-मेल आईडी : bampslsecurities@yahoo.co.in www.bampslsecurities.co.in । सीआईएन नं. : L65100DL1995PLC065028

रतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 29वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शनिवार, 28 सितंबर, 2024 को शाम 4.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') की सविधा के माध्यम से निम्नलिखित व्यवसाय करने के लिए आयोजित की जाएगी ताकि एजीएम बलाने की

29वीं एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रति और रिमोट ई-वोटिंग के निर्देश तथा वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 उन सभी सदस्यों को भेज दिए गए हैं जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के साथ संचार उद्देश्यों के लिए पंजीकृत हैं। यदि आपने कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, तो कृपया वित्त वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने और ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें।

rta@alankit.com पर एक अनुरोध भेजें, जिसमें फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई कॉपी (सामने और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई कॉपी), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई कॉपी) ईमेल पता पंजीकृत करने के लिए प्रदान करें।

यथासंशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में यह सूचना दी जाती है कि कंपनी ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा अपने पोर्टल www.evoting.nsdl.com के माध्यम से सभी व्यवसाय के संचालन के लिए ई-वोटिंग सुविधा की पेशकश की है ताकि सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें। ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें दुबारा अपना वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। रिमोट ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना के साथ भेजे गए पत्र में निहित है। ई-वोटिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न/शिकायत श्री भीष्म कुमार गुप्ता, प्रबंध निदेशक, बीएमपीएसएल सिक्योरिटीज लिमिटेड, ईमेलः

एजीएम की सूचना में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के माध्यम

. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान शुरू होने की तिथि और समयः 25 सितंबर, 2024 सुबह 9:00 बजे

. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान समाप्त होने की तिथि और समयः 27 सितंबर, 2024 शाम 5:00 बजे

. इलेक्टॉनिक माध्यम से या एजीएम में मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि 21 कोई भी व्यक्ति, जो नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बन

हालांकि, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, तो आप अपना वोट डालने के लिए अपने मौजदा युजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

3. जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें दबारा अपना वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

10. वार्षिक आम बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.bampslsecurities.co.in और

उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) for Members तथा remote e-voting user manual for Members देख सकते हैं या टोल फ्री नंबरः 1800-222-990 पर कॉल कर सकते हैं।

सितंबर, 2024 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगे। बोर्ड के आदेशानुसार

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 23 अगस्त, 2024

एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड - HDB WANTER पंजीकृत कार्यालयः राधिका, दूसरी मंजिल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात, पिन कोडः 380009

भीष्म कुमार गुप्ता प्रबंध निदेशक सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत ई-नीलामी बिक्री

एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में हस्ताक्षरित ने वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसार निम्नलिखित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। निम्नलिखित ऋण खातों को कंपनी के बकाया की वसूली के लिए "जैसा है जहां है के आधार पर" और "जैसा है जो है के आधार पर" बेचने

1. उधारकर्ता/ओ गारंटर/ओ का नाम और पता 2. कुल देय+ ब्याज	संपत्ति का विवरण	 ई—नीलामी की तिथि एवं समय ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि संपत्ति निरीक्षण की तारीख और समय 	1. आरक्षित मूल्य 2. संपत्ति के ई एमडी
यहां भी — दुकान नंबर एलजी ०४—जीएनएस प्लाजा प्लॉट नंबर एस7/2, साइट ४, ग्रेटर नोएडा २०१३०१ ओम प्रकाश सिंह पुत्र श्री राजा पाल सिंह — फ्लैट नंबर—610 टेक्नोलोजी अपार्टमेंट प्लॉट नंबर—24 आई.पी. एक्सटेंशन दिल्ली दिल्ली—110092 यहां भीरू निवासी ०४, साया अंबेडकर नगर, यूपी २२४१५२ यहां भी ई—12/2 सेक्टर—1 प्रथम तल नोएडा —201301 प्रियंका पॉल, —फ्लैट नंबर—610 टेक्नोलोजी अपार्टमेंट प्लॉट नंबर—24 आई.पी. एक्सटेंशन दिल्ली दिल्ली—110092.	व्यावसायिक बिल्डिंग में निचले तल (बेसमेंट) पर दुकान/कार्यालय/स्टोर नंबर एलजी–04 के सभी हिस्से, प्लॉट नंबर एस–7/2, औद्योगिक क्षेत्र, सूरजपुर साइट–IV, गांव –	10.30 बजे से शाम 05.00 बजे तक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ 2) केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 09.09.2024 — शाम 5 बजे 3) निरीक्षण की तारीखः 05.09.2024 के बीच — 12:00 अपराह्न से 4:00 अपराह्न	आरक्षित मूल्य (भारतीय रुपये में): रु. 17842782 / — (एक करोड़ अड्डाहत्तर लाख बयालीस हजा सात सौ बयासी रुपये मात्र) ईएमडी राशि (भारतीय रुपये में रु. 1784278 / — (सत्रह लाख चौरासी हजार दो सौ अड्डाहत्त रुपये मात्र)

में उल्लिखित तारीखों पर वेबसाइट https://www.bankeauctions.com/ के माध्यम से "ऑनलाइन ई—नीलामी" बोली लगाई जाएगी। (2) इच्छुक बोलीदाता अपनी ईएमडी वेब पोर्टलः https://www.bankeauctions.com/ के माध्यम से जमा करेंगे (उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड https://www.bankeauctions.com/ पर नाम पंजीकृत करके निरूशुल्क प्राप्त किया जा सकता है) लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से। ईएमडी ऊपर उल्लिखित खाते में एनईएफटी के माध्यम से देय होगी। वेब पोर्टल में बोलीदाता द्वारा पंजीकरण (एक बार) के बाद, इच्छुक बोलीदाता/खरीदार को बोली दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि और समय से पहले वेब पोर्टल में अपलोड किए गए निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करना आवश्यक है। i) एनईएफटी/आरटीजीएस चालान या डिमांड ड्राफ्ट की प्रतिय ii) पैन कार्ड की प्रतिय iii) पहचान का प्रमाण/पता प्रमाण (केवाईसी) अर्थात मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट आदि की स्व—सत्यापित प्रतिय जिसके बिना बोली खारिज हो जाएगी। अनुलग्नक—II और III की स्कैन की गई प्रति (वेब पोर्टल: https://www.bankeauctions.com/ डाउनलोड की जा सकती है) विधिवत भरने और हस्ताक्षर करने के बाद अपलोड करना भी आवश्यक है। इच्छुक बोलीदाता जिन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली दस्तावेज जमा करने, ऑनलाइन इंटर—से—बोली आदि पर प्रशिक्षण/प्रदर्शन में सहायता की आवश्यकता है, वे मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर—44, गुड़गांव— 122003, हरियाणा, ई—मेल आईडीरू विनोद चौहान / delhi@c1india.com 9813887931 से संपर्क कर सकते हैं और किसी भी संपत्ति संबंधी प्रश्न के लिए अधिकृत अधिकारी: श्री विकास आनंदय मोबाइल नंबर: 9711010384, ई–मेल आईडी: vikas.anand@hdbfs.com, औ श्री विशाल रितपुरकर से मोबाइल नंबर: 9833671006, ई—मेल आईडी: 🛮 vishal.ritpurkar@hdbfs.com सोमवार से शनिवार तक कार्य समय के दौरान संपर्क कर सकते हैं,। (3) इच्छ्क क्रेता / बोलीदाता को "एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड"के पक्ष में पीएआर ⁄ नई दिल्ली पर देय किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक पर निकाले गए डिमांड ड्राफ्ट ⁄ पे ऑर्डर के माध्यम से बयाना राशि जमा (ईएमडी) की राशि जमा करनी होगी।या "एचडीबीएफएस जनरल कॉलन्स" के खाते में एनईएफटी/आरटीजीएसयखाता संख्या 00210310002748; आईएफएससी कोड— HDFC0000021; एमआईसीआर कोडः MICR500240002; शाखाः लकड़ीकापुल हैदराबादय ऊपर उल्लिखित तिथि और समय पर या उससे पहले (कृपया उपरोक्त तालिका में उल्लिखित विवरण देखें) और अपना नाम https://www.bankeauctions.com/ पर पंजीकृत करें और उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करें और ई—नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त करें। सेवा प्रदाता से. वेब—साइट पर अपने पंजीकरण के बाद, इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करनी होंगी (1 एनईएफटी / आरटीजीएस चालान / डीडी कॉपी / पे ऑर्डर की प्रतिय 2. पैन कार्ड की प्रतिलिपि और 3. पते के प्रमाण की प्रतिलिपि (पासपोर्ट, डाइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पंजीकृत अवकाश लाइसेंस अनुबंध)} वेबसाइट पर पहले या द्वारा ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में बताया गया है और उसकी हार्डकॉपी भी ऊपर उल्लिखित शाखा में जमा करनी होगी। (4) बोली के साथ ईएमडी (आरक्षित मूल्य के 10% के बराबर) के साथ डिमांड ड्राफ्टपे ऑर्डर के माध्यम से "एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड" के पक्ष में सममूल्य / जयपुर पर देय या "एचडीबीएफएस जनरल कॉलन्स" खाता संख्या 00210310002748; आईएफएससी कोड– HDFC0000021; एमआईसीआर कोड MICR500240002; शाखाः लकडीकापुल, हैदराबाद ऊपर उल्लिखिततिथि और समय पर या उससे पहले के साथ संलग्न होना चाहिए। (5) जो बोलियां भरी नहीं जाएंगी या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त बोलियां अमान्य बोली मानी जाएंगी और सरसरी तौर पर खारिज कर दी जाएंगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। एक बार बोलीदाता द्वारा बोली जमा करने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। यदि बोलीदाता बोली प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी बिना किसी अतिरिक्त उपाय के जब्त कर ली जाएगी। हालाँकि, असफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। (6)प्रस्तुत की जाने वाली बोली मूल्य वृद्धि मूल्य के साथ आरक्षित मूल्य से ऊपर होगी तथा 10,000 🖊 (केवल दस हजार रुपये) और बोली लगाने वाले को रुपये के गुणक में अपनी पेशकश में और सुधार करना होगा। 10,000/- (रुपए दस हजार मात्र)। संपत्ति प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी। (7) सफल बोली लगाने वाले को बिक्री मूल्य का 25% (ईएमडी सहित) तुरंत लेकिन अगले कार्य दिवस से पहले "एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड" के पक्ष में पीएआर/जयपुर या एनईएफटी / आरटीजीएस पर देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा करना होगा । एचडीबीएफएस जनरल कॉलन्स के खाता संख्या 00210310002748; आईएफएससी कोड- HDFC0000021; एमआईसीआर कोड: MICR500240002; शाखाः लकड़ीकापुल, हैदराबाद और बिक्री मल्य की शेष राशि का भगतान सफल बोलीदाता द्वारा कंपनी द्वारा बिक्री की पष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। इच्छक बोलीदाताओं द्वारा भगतान की गई ईएमडी और बिक्री मल्य पर कोई ब्याज नहीं होगा। यदि सफल बोलीदाता बिक्री की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या कोई डिफॉल्ट करता है, तो ईएमडी की जमा राशि या बिक्री मृल्य का 10%, जो भी मामला हो, कंपनी द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। (8) बिक्री की शर्तों के अनुपालन पर, प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली लगाने वाले के पक्ष में "बिक्री प्रमाणपत्र" जारी करेगा। स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क, परिवहन, टीडीएस आदि से संबंधित सभी खर्च क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे। (9) कंपनी प्रस्तावित संपत्ति या किसी अन्य बकाया यानी बकाया पानी / बिजली बकाया, संपत्ति कर या अन्य शुल्क, यदि कोई हो, के संबंध में किसी भी प्राधिकारी से या लागू किसी अन्य कानून के तहत अनुमति / एनओसी प्राप्त करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। (10) सफल बोलीदाता को नगर निगम या किसी अन्य प्राधिकरण र ऐजेंसी को किसी भी विकास प्राधिकरण के लंबित बकाया, यदि कोई हो, कर / उपयोगिता बिल आदि और पंजीकरण के लिए स्टांप शुल्क/पंजीकरण शुल्क आदि के लिए देय शुल्क सहित सभी खर्च वहन करना होगा। विक्रय प्रमाणपत्र के पंजीकरण के लिए। (11) प्राधिकृत अधिकारी किसी भी या सभी प्रस्तावों/बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए बिक्री को स्थगित / रद्द करने या बिना किसी पूर्व सूचना के बिक्री की किसी भी शर्त को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार और विवेक सुरक्षित रखता है। अचल संपत्ति सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेची जाएगी। हालाँकि, यदि आवश्यक समझा जाए तो प्राधिकृत अधिकारी के पास परस्पर बोली लगाने की अनुमति देने का पूर्ण विवेक सुरक्षित है। (12) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, कंपनी को कंपनी के अलावा बेची जाने वाली संपत्ति पर किसी भी तरह की देनदारी के बारे में जानकारी नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी संतुष्टि के अनुसार संपत्ति का अपना मूल्यांकन करना चाहिए। कंपनी किसी भी तरह से उपरोक्त संपत्ति की फिटनेस / शीर्षक के संबंध में कोई गारंटी नहीं देती है या कोई प्रतिनिधित्व नहीं करती है। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, प्राधिकृत अधिकारी को उपरोक्त संपत्ति के संबंध में सरकार या किसी को भी किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार, ऋणभार, संपत्ति कर या किसी अन्य बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। (13) नोटिस में बकाया राशि और आकस्मिक खर्चों, लागतों आदि पर ऋण दस्तावेजों के अनुसार लागु होने पर आगे ब्याज लिया जाएगा और इसकी वास्तविक वसूली तक देय होगा। (14) इसके द्वारा ऋणी / बंधककर्ता को बिक्री के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के लिए नोटिस दिया जाता है और वे ऊपर वर्णित अनुसार अचल संपत्ति खरीदने के लिए इच्छुक क्रेता/क्रेता को बिक्री के नियमों और शर्तों के विवरण के अनुसार ला सकते हैं। (15) वेबसाइट पर प्रस्ताव/निविदा दस्तावेज के साथ उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में आवेदन करके नीलामी प्रक्रिया में ऑनलाइन ई—नीलामी में भाग लेना अनिवार्य है। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोलियां जमा करने और ई—नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तत नियमों और शर्तों के लिए वेबसाइट https://www.bankeauctions.com/ जाएं। जैसा कि ऊपर बताया गया है. ऑनलाइन बोली संगठन की वेबसाइट पर होगी. और निविदा दस्तावेज में निहित नियमों और शर्तों के अधीन होगी।नीलामी व लिए निविदा दस्तावेज और विस्तुत नियम और शर्तें वेबसाइट https://www.bankeauctions.com/ से डाउनलोड की जा सकती हैं या इसे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के संबंधित शाखा कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है। ऑनलाइन जमा किए गए संलग्नक के साथ बोली फॉर्म की एक प्रति (यूटीआर नंबर का भी उल्लेख करते हुए) श्री विकास आनंद मो.9711010384 एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में, पता—:, खसर नं. ४७, दूसरी मंजिल, दशहरा मैदान के सामने, विकासपूरी, नई दिल्ली—110018 ऊपर उल्लिखित तिथि और समय पर या उससे पहले। (कृपया उपरोक्त तालिका में उल्लिखित विवरण देखें)को सौंपी जाएगी। (16) संपत्ति "जैसा है जहां है" और "जैसा है जो है" के आधार पर बेची जाएगी और इच्छुक बोली लगाने वाले को कंपनी के अलावा किसी भी प्राधिकरण की संपत्ति पर भार, शुल्क और वैधानिक बकाया के संबंध में विवेकपूर्ण पूछताछ करनी चाहिए। शल्क और अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति के शीर्षक, सीमा, गणवत्ता और मात्रा के बारे में खद को संतष्ट कर लेना होगा। बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति, संपत्ति, संपत्ति, पर शल्क और भार या किसी अन्य मामले आदि के संबंध में किसी भी प्रकृति का कोई भी दावा ऑनलाइन बोली जमा करने के बाद और उसके बाद किसी भी चरण में विचार नहीं किया जाएगा।कंपनी क्षति या बेदखली की कार्यवाही आदि सहित किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। इच्छुक बोली लगाने वाले को इस संबंध में किरायेदारों के साथ–साथ कंपनी को भी क्षतिपूर्ति करनी होगी। क्रेता किरायेदार को बेदखल करने / किरायेदार के निपटान के लिए केवल कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा। कंपनी कैविएट एम्प्टर के सिद्धांत को सेवा में लाती है। (17) यह प्रकाशन सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6(2), 8(6) और नियम 9 के अनुसार उपरोक्त ऋण खाते के उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर को '15' (पंद्रह) दिन का नोटिस भी है, ताकि वे देयता का पर्ण रूप से निर्वहन कर सकें और ऊपर बताए गए बकाए के साथ—साथ अद्युतन ब्याज और खर्चों का इस नोटिस की तारीख से '15' (पंद्रह) दिन के भीतर भगतान कर सकें, अन्यथा सुरक्षित संपत्ति को ऊपर उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार बेच दिया जाएगा। यदि अंग्रेजी और स्थानीय समाचार पत्र में बिक्री नोटिस के प्रकाशनों में कोई विसंगति है, तो ऐसे मामले में अंग्रेजी समाचार पत्र स्थानीय समाचार पत्र का स्थान ले लेगा और इसे अंतिम प्रति माना जाएगा, जिससे अस्पष्टता दूर हो जाएगी। यदि उधारकर्ता/बंधककर्ता बिक्री की तारीख से पहले कंपनी को देय राशि का पूरा भुगतान कर देता है। अधिक जानकारी और प्रश्नों के लिए, **प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड श्री विकास आनंदः 09711010384** प्राधिकृत अधिकारी स्थानः नई दिल्ली

दिनांक: 25.08.2024

सूचना

सुचना में निर्धारित ऐसे साधारण और विशेष व्यवसाय को अंजाम दिया जा सके।

भौतिक धारिताः कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड को

डीमैट धारिताः कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता पंजीकृत करें।

bampslsecurities@yahoo.co.in को संबोधित की जा सकती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और संशोधित नियमों के नियम 20 के अनुसार विवरण नीचे दिए गए हैं:

इलेक्टॉनिक माध्यम से मतदान 27 सितंबर, 2024 को शाम 5:00 बजे के बाद नहीं किया जा सकेगा

जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी 21 सितंबर, 2024 तक शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम और सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी।

सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर भी प्रदर्शित की गई है। . किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में

कोई व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के

रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि यानी 21 सितंबर, 2024 को दर्ज किया गया है, वह रिमोट ई-वोटिंग की

कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक एजीएम के उद्देश्य से 21 सितंबर, 2024 से 29

मेसर्स बीएएमपीएसएल सिक्योरिटीज लिमिटेड

सुचना शाखा कार्यालयः एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, खसरा नंबर 47, दशहरा मैदान के सामने, बुडेला, ऑक्स फोर्ड स्कूल के पास, विकासपुरी दिल्ली 110018

इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे शाखा और नीलामी के लिए रखी गई संपत्तियों का दौरा करें और शुल्कों, बाधाओं के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करें। क्रेता को स्वयं जांच करनी होगी और अतिरिक्त

शुल्कों, बाधाओं और किसी तीसरे पक्ष के हितों का पता लगाना होगा और सभी पहलुओं में खुद को संतुष्ट करना होगा। संपत्ति से जुड़े सभी वैधानिक बकाया जैसे संपत्ति कर, बिजली बकाया और कोई अन्य बकाया, यदि कोई

हो, का पता लगाया जाना चाहिए और सफल बोली लगाने वालों /संभावित क्रेता द्वारा भृगतान किया जाना चाहिए। बोली लगाने वालों /संभावित क्रेताओं से अनुरोध है कि वे बोली जमा करने से पहले, अपने हित में, उपरोक्त

और उपर्यक्त संपत्ति / संपत्तियों से संबंधित अन्य प्रासंगिक विवरणों के संबंध में खद को संतष्ट कर लें। ऑनलाइन निविदा / नीलामी के नियम एवं शर्तें (1)नीलामी बिक्री 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ उपरोक्त तालिक